SURAJ INDUSTRIES LTD

Registered Office -Plot No. 2 Phase-3, Sansarpur Terrace, Distt. Kangra, H.P.-173212 CIN: L26943HP1992PLC016791

Email id- secretarial@surajindustries.org; Website- www.surajindustries.org
Telephone No: 01970-256414

September 06, 2022

To,
The Executive Director
BSE Limited
Floor 25, P J Towers
Dalal Street
Mumbai-400001

Scrip Code: 526211

Sub: Copy of Newspaper advertisement regarding Notice of 30th Annual General Meeting of the company for the financial year 2021-2022 along with the details of E-voting.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Schedule III of said Regulations, we are enclosing herewith the Newspaper advertisement published on September 06, 2022 in the following Newspapers with respect to Notice of 30th AGM of the Company, which is scheduled to be held on Tuesday, September 27, 2022 at 04:00 P.M. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, alongwith E-voting information.

- 1. The Financial Express (English)
- 2. Jansatta (Hindi)

You are requested to take the above on record.

Thanking You Yours Truly For Suraj Industries Ltd

Chhavi Agrawal (Company Secretary)

Encl: as above

FINANCIAL EXPRESS

REGENCY FINCORP LIMITED CIN: L67120PB1993PLC013169

Unit No. 57-58, 4th Floor, Sushma Infinium, Chandigarh-Ambala Highway, Zirakpur-140603, PB (IN)

Email Id: regencyinvestmentsltd@gmail.com

NOTICE

The 29th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, 26th September, 2022 at 12:00 Noon through Video Conferencing, to transact the business as set out in the Notice of the meeting dated 24th August, 2022.

Notice is hereby given that:

The Company on Saturday, 3rd September, 2022, completed the dispatch of Notice of 29th AGM along with the Annual Report for the year 2021-22 by electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company Depository Participant(s) on Friday, 26th August, 2022 (the "Cut-off Date")

- The Notice of Annual General Meeting can be viewed/ downloaded from the CDSL website www.evotingindia.com. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015("Listing Regulations"), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 21st September, 2022 to Monday, 26th September, 2022 (both days inclusive) for the said Annual General Meeting.
- Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide e-voting facility by Central Depository Services Limited (CDSL) to its members in respect of the business (es) to be transacted at the Annual General Meeting
- The e-voting facility will be available from Friday, 23rd September, 2022 (9:00 A.M.) to Sunday, 25th September, 2022 (5:00 P.M.) after which e-voting shall not
- The Cut-Off date for determining the eligibility to vote through electronic means or at the AGM is Tuesday, 20th September, 2022.
- Any person, who acquires shares of the company and becomes member of company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on Cut-Off date, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for
- Facility for Remote e-voting shall be available at the AGM. Members who have already cast their vote through Remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.
- In case of any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members, available at www.evotingindia.com or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com.or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager at CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013, or at 1800-22-5533 or registered office address of the Company. By the Order of the Board of

For Regency Fincorp Limited Manisha Sharma

Place: New Delhi Date: 3rd September, 2022

Company Secretary & Compliance Officer M. No. A58430

SVAM SOFTWARE LIMITED CIN: 65100DL1992PLC047327

Regd. Off: 224, G/F SwayamSewa, Co-Operative Housing Society Ltd., Jhilmil Delhi - 110032

NOTICE

The 30th (Thirtieth) Annual General Meeting ("AGM") of the members of Svam Software Limited will be held on Friday 30th September, 2022 at 10.30 A.M. at, "S-524, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092, to transact the business mentioned in the notice convening the said meeting which is being sent to the members whose name is appearing in registers on Friday 2nd September, 2022, along with the Annual Report for the year ended 31st

members and the share transfer books of the company will remain closed from Saturday 24th September, 2022 to Friday 30th September, 2022 (both the days inclusive) Pursuant to the provisions of section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Standard 2 of the Secretarial Standard on General Meeting, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means ("remote e-voting) as provided by CDSL on all resolutions as set out in the notice of AGM.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) the register of

- Date and time of commencement of remote e-voting: Tuesday, 27th September, 2022 (9:00 A.M.)
- Date and time of end of remote e-voting: Thursday, 29th September, 2022 (5:00 P.M.).
- Cut- off date for determining the eligibility to vote:
- Friday, 16th September, 2022. Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the
- AGM. Members attending the meeting. Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the
- meeting, but shall not be able to exercise their right at the meeting. The Notice of AGM is available on the Company website- and on the
- website of CDSL www.evotingindia.com.
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

For Svam Software Limited

Date: 06/09/2022 Place: Delhi

Manisha Agarwal Managing Director

AYUSHMAN INFRATECH LTD CIN: L45100DL1973PLC006795

Regd. Office: DSC-319, DLF SOUTH COURT, SAKET NEW DELHI 110017 Corporate Office: DSC-326, DLF SOUTH COURT, SAKET NEW DELHI 110017 Email id: cs@greatvalueindia.com; Website: www.ayushman.net (Phone No:-011-41349612-14)

NOTICE OF 49[™] ANNUAL GENERAL MEETING OF AYUSHMAN INFRATECH LTD.

Notice is hereby given that an 49"Annual General Meeting of the Shareholders of AYUSHMAN INFRATECH Ltd. will be held on Friday, 30th day of September, 2022 at 12:00 PM at registered office of the Company situated at DSC-319, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017, to transact the business, as set out in the notice of AGM.

The AGM Notice, proxy form and Attendance Slip have been sent through permitted mode to the members. These documents are also available on the website of the Company i.e. www.ayushman.net and on the website of Metropolitan Stock Exchange of India Limited i.e.

Members may further note that in pursuance of above stated circulars and also in furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the 49" AGM and Annual Report for the financial year 2021-22, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depository

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 23" September, 2022 may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of AGM. All the members are informed that:

- Facility of remote e-voting is also available to the Shareholders. Accordingly, Shareholders can vote through electronic means instead of voting in the meeting.
- A person, whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial Owners as on 23" September, 2022, being the cut-off date for voting, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through ballot paper at the meeting. The Registers of Members and Share Transfers shall remain closed from Saturday,
- the 24" Day of September, 2022 to Friday, the 30" Day of September, 2022 [both days The remote e-voting period begins on Tuesday, 27th September, 2022 (09:00 A.M IST)
- and ends on Thursday, 29" September, 2022 (05:00 P.M IST). The e-voting facility will be available at the link www.evotingindia.com during the aforesaid e-voting period. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- Any, person who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date may obtain the login id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com and cs@greatvalueindia.com.
- The Facility for voting through postal ballot paper shall be made available at the AGM. Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may contact the following person:

R/o: A Wing, 25° Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg,

Name: Mr. RakeshDalvi (Manager)

Lower Parel (E), Mumbai - 400013. Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com

Phone number: 022-23058542/43.

Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / voting through postal ballot during the AGM is also mentioned in the notice of AGM. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website i.e. www.ayushman.net, websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited i.e.

www.msei.in. and on the website of Central Depository Services (India) Limited at

www.evotingindia.com. in due course of time. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars issued from time to time.

> For AYUSHMAN INFRATECH LIMITED Vinay Anand

Company Secretary and Compliance Officer

TRINITY LEAGUE INDIA LIMITED Regd. Off.: A-23, Mandakini Enclave, Alaknanda, GK II, New Delhi-110019

Corporate Office: Trinity Tower, B-2, Sector-7, Noida, Uttar Pradesh -201301 Contact- 0120-4712847, website: www.trinitygroup.ind.in, E-mail: trinityleague@trinitygroup.ind.in Notice of the 34th Annual General Meeting It is hereby informed that the Thirty Third Annual General Meeting (34" AGM) of Trinity League

India Limited will be held on Wednesday the 28° day of September 2022 at 11.30 AM. Through

Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as

set out in the Notice of the AGM only through e-voting facility. The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020) issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020 and Circular No. 02/2021 dates January 13, 2021 & Circular dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice

Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 is being sent only through electronic

mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or CDSL/NSDL ('Depositories') and will also be available on the Company's website www.trinitygroup.ind.in and website of the Bombay Stock Exchange i.e. at www.bseindia.com. Members who have not registered their e-mail addresses and in consequence the Annual Report including Notice of AGM and e-voting instructions could not be serviced, may get their email address and mobile number registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, by sending mail on investor@beetalfinancial.com for the same along with scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for obtaining the Annual Report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

The remote e-voting period will commence from 25th September, 2022 at 10:00 am and will end at 5.00 pm on 27th September, 2022. During this period the eligible shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter i.e. voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 27, 2022. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and

e-voting at the AGM is Wednesday, September 21, 2022. Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to investor@beetalfinancial.com to cast his/her vote. The detailed procedure for obtaining the login ID and password and exercising e-voting is provided in the Notice of AGM. Members holding shares in electronic form are requested to intimate any change in their bank mandates to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat

accounts. The Company or its RTA cannot act on any request received directly from the Members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. The Members holding shares in physical form are requested to advise any change in their bank nandate immediately to Beetal House, 3rd Floor 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi- 110062. By Order of the Board of Directors,

For Trinity League India Limited

Place: New Delhi Date: September 05, 2022

Piyush Kumar Srivastava Company Secretary & Compliance Officer

CIN: L74110DL2011PLC221111 | Contact No: 011-4156 2293 Regd. Off: 710, Naurang House, KG Road, Connaught Place, New-Delhi-110001 E-mail: secretarial.fdsl@gmail.com | Website ; www.fdsindia.co.in NOTICE OF 10th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO

FOURTH DIMENSION SOLUTIONS LIMITED

BE HELD THROUGH VC/OAVM AND E-VOTING INFORMATION 1. NOTICE is hereby given that the 10th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Fourth Dimension Solutions Limited (the Company) will be held on Thursday, September 29, 2022 at 12.30 P.M (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) ONLY to transact the business as set out in the Notice of the AGM, the annual report containing notice of AGM will be sent, through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar &

Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice

of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars on General Meetings and SEBI

- 2. The Annual Report containing Notice of AGM is available on the website of the Company at www.fdsindia.co.in and on the websites of the Stock Exchange at www.nseindia.com A copy of the same is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.
- 3. Members holding shares either in physical form or in demateralized form, as on Thursday, 22 September, 2022, being the cut-of date may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of AGM through electronic voting system (remote evoting) of CDSL. All members of the Company are informed that
- ii. The Ordinary Business as set forth in the Notice of the AGM will be transacted only through voting by electronic means
- The remote e-voting will commence at 9:00 am (IST) on Monday, September 26, 2022. iii. The remote e-voting shall end at 5:00 pm (IST) on Wednesday, September 28, 2022 and once the vote on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be
- iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through the e-voting system during the AGM is Thursday, September 22, 2022.
- v. Remote e-voting module shall be disabled after 5:00 pm (IST) on Wednesday, vi. A person who has acquired shares and became a member of the Company after the
- sending of Notice of AGM by email and holding shares as on-cut-off date, may cast vote by following the instructions for e-voting as provided in the Notice of the AGM, which is available on the website of the Company and CDSL However, if the person is already registered with CDSL for remote e-voting, then the existing user ID and password can be used to cast vote. Members are requested to go through the e-voting instructions, which are provided in the Notice of AGM
- vii. The Members may note that a) the Members who have cast their vote by remote evoting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting system during the AGM, b) The Members participating in the AGM and who have not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the AGM c) a person whose name recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting participating in the AGM through VC/OAVM facility
- viii. For details relating to remote e-voting please refer to the Notice of the AGM in case of any queries relating to e-voting download section of www.evotingindia.com or contact at toll-free no. 1800 225 533 or send an email to helpdesk, evoting@cdslindia.com. ix. Anisha Jhunjhunwala & Associates, Practicing Company Secretaries has been
- appointed as the Scrutinizer remote e-voting and e-voting during the AGM in fair and x. Members of the Company who have not registered their email addresses are requested
- to update with their Depository Participant. For Fourth Dimension Solutions Limited

Place: New-Delhi Date: September 05, 2022 Ashish Thakur Company Secretary

NUTECH GLOBAL LIMITED Regd. Office: E-149. RIICO Industrial Area, Bhilwara -311001, Rajasthan

Tel.: +91 1482 260508, Email ID: info@nutechglobal.com CIN: L17114RJ1984PLC003023: Website: www.nutechglobal.com NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 38thAnnual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, 30th Day of September, 2022 at 11:00 A.M at the registered office of the Company at E-149, RIICO Industrial Area, Bhilwara -31101, Rajasthan to transact the business set out in the Notice of AGM.

In compliance MCA Circulars and SEBI Circular dated May 13, 2022. The Notice of 38th Annual General Meeting and detailed instructions and information relating to e-voting, together with Annual Report of the company for the Financial Year 2021-2022 has been emailed to the members whose e-mail addresses have been registered with the Company/RTA/Depositories. The dispatch of the Annual Report together with the Notice of the AGM only through electronic Mode has been completed on 3rd September, 2022. Members who have not received Notice and the Annual Report may download the same from the website of the company i.e.www.nutechglobal.com and from the website of stock exchange www.bseindia.com

In compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has provided electronic voting facility for transacting all the business items as mentioned in Notice of 38th Annual General Meeting through e-voting facility on the platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The remote e-voting facility shall commence on Tuesday, 27th September, 2022 at 9.00 A.M. and will end on Thursday, 29th September, 2022 at 5:00 P.M. No e-voting shall be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cutoff date i.e., 23rdSeptember, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting. Any person who has acquired shares and become members of the Company after dispatch of notice may obtain the user ID and password for remote e-voting from the Company's

Registrar & Transfer agents, M/s. Beetal Financial & Computer Services Private Limited, Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, BH- Local Shopping Complex, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on CDSL's website www.cdslindia.com The facility for voting through ballot paper shall be made available at the Annual General

Meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote evoting shall be able to exercise their right at the meeting through Ballot paper. The result of evoting shall be announced on or after the Annual General Meeting of the Company. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of CDSL for information of the members, besides being communicated to the Stock Exchange If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting

System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058543, 022-23058542.All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. Further Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and

Regulation 42 of the SÉBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 24, 2022 to Friday, September 30, 2022 (both days By order of the Board For Nutech Global Limited

Date: 5th September, 2022

Place: Bhilwara

(Rajeev Mukhija) Managing Director DIN NO. 00507367

RHL PROFILES LIMITED CIN: U27104UP1987PLC009209

Regd. Office:-Somani Bhawan, 51/27, Nayaganj Kanpur-208001 Phone No .: - 9839146442 Email Id: - cs@rhlprofiles.com, Website: www.rhlprofiles.com

Thursday, 29th September, 2022 at 1:30 pm at City Centre, 4th Floor, The Mall, Kanpur-208001. In Compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the members are provided the facility to cast their vote electronically from a place other than venue of AGM (remote evoting) on all resolution set forth in the Notice, for which the Company has engaged Central Depository Services Limited as e-voting agency. The Company has completed the dispatch of notice on 05.09.2022. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register

entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM. The remote e-voting period commences on Monday, September 26, 2022 at 9:30 a.m. and ends on Wednesday, September 28, 2022 at 5:00 pm. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Awashesh Dixit, Practicing Company Secretary as the scrutinizer for scrutinizing the e-voting process in a fair & transparent manner. The e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M of 28.09.2022. The members who have not casted their vote electronically can exercise their voting rights at the AGM through poll. The members who have casted their vote electronically can also attend AGM however they cannot vote at AGM. The result of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company & it shall also be placed along with the scrutinizer report, on the website of the Company www.rhlprofiles.com & shall be affixed on the notice Board of registered office of the Company. In case of any queries or grievances relating to voting or in case any person who has acquired shares and become member of the Company after the dispatch of Notice, may contact secretarial department, RHL Profiles Limited, 63/2, City Centre, 4th Floor, The Mall, Kanpur, Tel: 9839146442 email: cs@rhlprofiles.com to obtain the login id and password. For RHL Profiles Limited

Place: Kanpur Date: 05.09.2022

(Managing Director) DIN: 01414928

SNS PROPERTIES & LEASING LIMITED

(CIN: L65922DL1985PLC020853) Regd. Office: D2-11, Budh Vihar, Phase - 1, New Delhi - 110086, Website: www.snsind.com, e-Mail: sns.prop.ltd@gmail.com

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting of Members of the

Company will be held on Friday, 30th day of September 2022, at 11.00 A.M. at D2-II, Budh Vihar, Phase I, New Delhi - 110086 to transact the businesses set out in the Notice convening the meeting ("the Notice") for the Financial Year 2021-22.

In compliance with MCA circulars and SEBI circular dated May 13, 2022, the Notice of 30th Annual General meeting and detailed instructions and information relating to e-voting, together with Annual Report of the Company for the Financial Year 2021. 22 has been sent through electronic mail to the members whose e-mail addresses have been registered with the Company/RTA/Depositories and the Notice of Annual General Meeting has also been dispatched at the registered addresses of the members on 03.09.2022 and the same are also available on the Website of the Company at https://www.snsind.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting), provided by NSDL In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by

Listed Companies, individual shareholders holding securities in dematerialised form are allowed to vote through their Demat Account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email address in their Demat Accounts in order to access e-Voting facility. The e-voting period commences on Monday, September 26, 2022 at 10:00 AM and

ends Thursday, September 29, 2022 at 5:00 PM. During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialised form as on Friday. September 23, 2022 i.e. cut-off date, may cast their vote electronically. The evoting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by

person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares on the Cut-off date, may obtain a login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. The Company has appointed Mr. Rajeev Bhambri, Company Secretary in Practice as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner

them in the paid-up equity share capital of the Company as on 23.09.2022. Any

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the meeting is provided

in the Notice of the AGM. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 26th September, 2022 to 30th September, 2022 (both days inclusive) for the ensuing

For SNS Properties and Leasing Limited

MANPREET KAUR

Place: New Delhi Date: 05.09.2022

36th Annual General Meeting of the Company

Company Secretary & Compliance Officer

VIVO COLLABORATION SOLUTIONS LIMITED (CIN: U72900DL2012PLC230709)

Registered Office: 315, Third Floor, HB Twin Tower, NetailSubhash Place,

Pitampura North Delhi DL 110034 Email: sanjay.mittal@vivo.ooo, Website: www.vivo.ooo, Phone: 91-7838651690; NOTICE OF THE 11THANNUAL GENERAL MEETING (AGM). E-VOTING INFORMATION& BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 11" Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Thursday, 29" September, 2022 at 01:00P.M. (IST) to transact the business, as set out in the Notice of the In accordance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules made

thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, read with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 03/2022 dated 08" April, 2020, 13" April, 2020, 05" May, 2020, 13" January, 2021 and 05" May 2022 respectively and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIRP/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 12" May, 2020 and 15" January, 2021 respectively, the Notice of 11"AGM and Annual Report 2021-22 have been sent in electronic mode, only to the members whose e-mail addresses are registered with the company/the depository participants. The requirement of sending physical copy of the Notice of AGM and Annual Report to the members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. The electronic dispatch of Annual Report to the Members has been completed on 05° September, 2022. The aforesaid Notice and Annual Report are available on the website of the Company i.e. www.vivo.ooo and website of the stock exchange i.e. www.nseindia.com. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of

the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meeting (SS-2), the Company is pleased to provide remote evoting facility to its members, to vote from a place other than venue of AGM through VC/OAVM facility and e-voting during the AGM through National Securities Depository Limited (NSDL). The procedure/instructions in this respect-have been provided in notes to the Notice of AGM. The members of the Company holding shares eitherin physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. 22"September 2022, shall be eligible to cast vote by remote e-voting or attend the meeting through VG/OAVM and cast vote atAGM. The voting rights of members shall

be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the Cutoff Date, The remote e-voting period shall commence on Monday 26" September 2022 (09.00) A.M. IST) and end on Wednesday 28" September, 2022 (05.00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote ona resolution is cast by the members through remote e-voting, he shall not be permitted to change it subsequently. Members who have cast their votes through remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled for cast their votes again. Any person, who acquires shares and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday, 22 September 2022 may obtain

already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID-and password for casting your vote Mr. SanjeevDabas, Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are

Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves by sending request mentioning their name, demat account/folio number, email id, mobile number through their registered e-mail to the Company atcs@vivo.oooon or before 26" September, 2022along with the copy of signed request letter mentioning the name and address of the shareholders, self-attested copy of PAN/other identity and address proof.

Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register update their

In case of any queries relating to e-voting or attending AGM through VC/OAVM, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for the Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdlcom or call on toll free no: 1800-1020-990 or 1800-224-430 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact National Securities Depository Limited, Trade World, A Wing; 4' Floor, Kamala Mill Compound, SenapatiBapatMarg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated email id:evoting@nsdl.co.in

email addresses with their Depository Participants

Place: New Delhi

Date: 05"September, 2022

Sanjay Mittal (Managing Director

For Vivo Collaboration SolutionsLimited

SURAJ INDUSTRIES LTD

Regd. Office: Plot No. 2, Phase III, Sansarpur Terrace, Kangra, Himachal Pradesh 173212 Corporate Office: F-32/3, Second Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 Email id:- secretarial@surajindustries.org; Website- www.surajindustries.org CIN: L26943HP1992PLC016791 Contact No: 01970-256414

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the members of M/s Suraj Industries Ltd will be held on Tuesday, September 27, 2022 at 4:00 P.M. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the votice of the AGM in accordance with the MCA circulars No.14/2020 dated April 08, 2020 General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020; General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020; General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021; General Circular No. 19 2021 dated December 08, 2021; General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 and General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 respectively ("MCA Circulars") read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, Dated January 15, 2021 Circular dated May 12, 2020 January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular").

The Notice of AGM along with login details for joining the AGM through VC / OAVM facility ncluding e-voting has been sent on Monday, September 05, 2022 through e-mail to all those Members whose e-mail address were registered with the Company or Registrar and Share Fransfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular, and the same are also available on Company's website (www.surajindustries.org), Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and on the website f CDSL (www.evotingindia.com). n compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of

provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) through services provided by Central Depository Services he remote e-voting period will commence at 10.00 A.M. (IST) Saturday 24th September, 2022 upto 5.00 P.M. (IST) on Monday, 26th September, 2022. During this period, Members may cas: their vote electronically. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on Monday, September 26, 2022. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate

in the AGM through VC / OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members are

e-voting facility available during the AGM. Once the member cast vote on a resolution, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM and e-voting during the AGM is provided in the Notice of AGM.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on September 20, 2022 ('cut-off date'). Any person, who is a member of the Company as on cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or e-voting at the AGM. / person who ceases to be a Member as on Cut-off date should treat this Notice for information

A person who has acquired shares and becomes a member of the Company after the lectronic dispatch of notice of the AGM and holding shares as of the cutoff date, may obtain the login ID and password by sending a request to helpdesk evoting@cdslindia.com. However f the person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

For members holding shares in physical form, kindly provide your name, folio number e-mail address to be registered along with scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar card by e-mail to the RTA at beetalrta@gmail.com. For members holding shares in demat form, please update your e-mail address through

Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill

your respective Depository Participant/s.

Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542. The results of voting will be declared within 2 working days from the conclusion of AGM and the results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the

The Company has been allotted ISIN (INE170U01011) for dematerialization of the company's shares. All the members are requested to kindly get their shares dematerialized. By order of the Board of Directors of

Regd. Off. 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 Website: www.alankit.in Email for investors: investor@alankit.com

NOTICE OF THE 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

The 33RD Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, 29th September, 2022 at 11.30 A.M. through Video Conferencing ("VC")/ other Audio-Visual means ("OAVM") in accordance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under and the Securities Exchange Board of India("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General circulars issued by Ministry of Corporate affairs dated 08th April 2020, 13th April 2020, 05th May 2020, 13th January 2021, 08th December 2021, 14th December 2021, and 05th May, 2022 (Collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular issued by SEBI dated 12th May 2020, 15th January 2021, and 13th May, 2022 ("SEBI Circulars")

The Notice of the 33rd AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-2022 has already been sent to those members whose e-mail address are registered with the company/ Registrar and Share Transfer Agent, Alankit Assignments Limited and Depositories. The requirement of sending physical copies of notice of the AGM and Annual Report has been dispensed with pursuant to the above said MCA Circulars and SEBI Circulars. The Notice of 33rd AGM together with Explanatory Statement and Annual Report has been uploaded on the website of the Company at www.alankit.in and available on the websites of NSDL at www.evoting.nsdl.com and Stock exchanges a

Book Closure: The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 23rd September, 2022 to 29th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM and to determine the names of the shareholders who will be

E-Voting: The Company is providing to its Members, holding Equity Share either in physical or demat form as on Thursday, 22nd September, 2022 (cut-off date), the facility to exercise the votes through electronic mode, in the following manner, through e-voting

(A)Remote e-voting: The Remote e-voting facility will commence on 26th September, 2022 at 10.00 am and will end on 28th September, 2022 at 5.00 pm and it shall be disabled

(B)E-voting at the AGM: The facility of e-voting shall also be made available at the AGM to those members who have not cast their vote by remote e-voting and are attending the AGM Members, whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of

Members, who have not cast their vote through remote e-voting and present at the AGM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM, by following the procedure the outlines in the Notice. Any Person who became member of the Company after sent the Notice of the AGM and

mentioned in the Notice of the AGM. Members who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with respective Depository Participant, in case of shares held in electronic form and

electronically, if shares held in physical form. Members who have already registered their e-mail address, mobile nos., postal address and bank account details are requested to validate / update the same by contacting the respective Depository Participant in case of shares held in electronic form or by contacting the Alankit Assignments Limited, at 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension,

New Delhi-110055, in case the shares are held in physical form. Technically assistance for e-voting or VC/OAVM participation: Any grievances connected with the facility for e-voting may be addressed to National Securities Depository Limited or send an email to evoting@nsdl.co.in. Please write to the Company for any assistance.

Place: New Delhi Date: 05.09.2022

advertising copy, it is not possible to verify its

contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Corporate Office:4th Floor, 63/2, City Centre, The Mall, Kanpur-208001

NOTICE is hereby given that the AGM of the Company is to be held on of beneficial owners as on the cut-off date i.e. 23rd September 2022 shall be

Krishan Kr. Somani

Members who are holding shares in physical form or have not registered their e-mail address with he Company/Depositories can obtain login credentials for e-voting as per the following procedure

FAQ's) and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or contact CDSL on 022-23058542. In case of any grievances connected with e-voting facility, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager (CDSL) Central

you have any query relating to e-voting facility, please refer the Frequently Asked Questions

Company's website and the website of CDSL.

M/s Suraj Industries Ltd Place: New Delhi Chhavi Agrawal Date: 05.09.2022 (Company Secretary)



Tel No.: 011-42541234/904

to transact the business as set out in the Notice of AGM dated 10th August, 2022.

www.nseindia.com and www.bseindia.com.

entitled to receive final dividend, if approved at the AGM.

services provided by NSDL:

Beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut-off date i.e. 22nd September, 2022 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting and participate

holds shares as on the Cut-Off date, may obtain user ID and Password by sending a request to Alankit Assignments Limited and Depositories and can exercise their voting right through remote e-voting and participate and vote in AGM, by following the instructions

by sending a request at sachinn@alankit.com and rta@alankit.com along with signed scanned copy of the request letter providing the e-mail address, mobile no., self-attested PAN copy and for receiving the Annual Report 2021-22 along with the Notice of 33rd AGM

Sachin Narang Company Secretary & Compliance Officer

For **Alankit Limited**

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of

Chandigarh /

financialexp.ep.in

Date: 5" September, 2022

Place: New Delhi

पंजी. कार्यालयः 7वां, के.एम बरवाला रोड, तलवंडी राना, हिसार–125001 (हरियाणा) ई-मेल आईडी: arceeind@rediffmail.com फोन गंo.: 98120-40111, 98120-40222 सीखाईएनः L29120HR1992PLC031681

30वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और ई-मतदान

एतदहारा सुवित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 7वें के.एम. बरवाला रोड, तलवंडी राना, हिसार (हरियाणा) में 30वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय के निस्तारण हेतु आयोजित की जाएगी।

कंपनी के एजीएम की सूचना और वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/ हिपाँजिटरी प्रतिमाणियों के साथ पंजीकत हैं और भौतिक प्रतिया उन सदस्यों को उनके पंजीकत पते पर भेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ यह पत्राचार एवं सूचना निम्नलिखित वेबसाइटों www.arceeindustries.in और http://evoling.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यों को रिमोट ई-मतदान से संबंधित जानकारी के साथ-साथ, यूजर आईडी एवं पासवर्ड भेज दिया गया है।

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, के अनुसार, संशोधित तथा सेबी (सुचियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 कंपनी अपने सदस्तों को बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट) द्वारा मताधिकार की सुविधा प्रदान करने में खुशी अनुभव कर रही है। कंपनी द्वारा रिगोट ई-मतदान सुविधा प्रदान करने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को अधिकृत एजेंसी नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-मतदान का विवरण निम्नानुसार है:

रिमोट ई—मतदान प्रारंभ होने की तिथि एवं समय: 27 सितंबर, 2022 (प्रात: 9.00 बजे).

रिमोट ई-मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समय: 29 सितंबर, 2022 (सार्य 5.00 बजे) रिमोट ई-मतदान की अनुमति 29 सितंबर, 2021 (साथं 5.00 बजे) के बाद नहीं दी जाएगी।

जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2022 के अनुसार कंपनी के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों के तौर पर दर्ज है वह ही रिमोट ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के साथ-साथ बैठक में मतदान करने के अधिकारी है। वह व्यक्ति, जो बैठक की जानकारी भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और

कट-ऑफ तिथि के अनुसार वह शेयरधारक है वह बैठक सूचना के अनुसार विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करके यूजर आईटी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट एवं एनएसढीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो वह रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम स्थल पर भी उपलब्ध रहेगी तथा रिमोट ई-मतदान से अपना मत न देने वाले एजीएम में उपस्थित सदस्य एजीएम में अपना मतदान

रिमोट ई-मतदान से अपना मत दे चुके सदस्य बैठक में उपस्थित रह सकते है लेकिन बैठक में अपने मत का पुनः उपयोग नहीं कर सकेंगे। रिमोट ई-मतदान से संबंधित किसी पूछतांछ हेत्, सदस्य/लाभार्थी स्वामी निम्नलिखित पते पर

श्री अंकुर मिताल/श्री नरेंद्र देव, प्रबंधक नेशनल सिक्योरिटीज क्रिपॉजिटरी लिमिटेड. टेड वर्ल्ड 'ए

विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मृम्बई-400013, फोन

नं. **022 2499 4545** या टोल फ्री नं. 1800-222-990; ई-मेल: evoting@nsdl.co.in l सदस्यगण कंपनी को ई-मेलः aroseind@rediffmail.com पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी लिख सकते हैं। कंपनीज अधिनियम, 2013 की घारा 91, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सुचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि एजीएम के उद्देश्य के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेवर ट्रांसफर बुक मंगलवार, 20 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 तक

स्थान : हिसार (हरिवाणा) विनांकः 06 सितंबर, 2022

(दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

आरसी इंडस्ट्रीज तिमिटेड (श्रुवि गुप्ता) पूर्णकातिक निर्देशक **ढीआईएन-01742368**

Punjab & Sind Bank पंजाब एण्ड सिंध बेंक

शाखा कार्यालय : 5/1, डी.बी. गुप्ता रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055 दूरभाष : 011-23617738 ई-मेल : D0019@psb.co.in

1. श्रीमती पूनम पत्नी श्री बिरजू एस-21 दूसरी मंजिल, नवीन शाहदरा उत्तर पूर्व दिल्ली-110032 कर्जदार इसके अलावाः 1/5776ए गली नंबर 13 बलबीर नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 2. श्री बिरजू पुत्र श्री चमन लाल एस-21 दूसरी मीजल, नवीन शाहदरा उत्तर पूर्व दिल्ली-110032

इसके अलावाः 1/5776ए गली नंबर 13 बलबीर नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 3. श्री सौरभ सेठी पुत्र श्री दीपक सेठी 1/6423, गली नंबर 5 ईस्ट रोहताश नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 जमानती

4. श्री कमल कुमार बैरवा पुत्र श्री राम नारायण बी-95/10, गगन विहार, मीठापुर एक्सटेंशन, बदरपुर दिल्ली-110044 इसके अलावाः बी -609, शॉप नंबर 01, गली नंबर 01, साई नगर, स्कूल रोड, मीठापुर एक्सटेंशन,

बदरपुर, दिल्ली-110044 जमानती विषय: वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

1. कि आप सम्बोधित सं. 1 श्रीमती पूनम पत्नी श्री बिरजू एवं सम्बोधिती सं. 2 श्री बिरजू पुत्र श्री

चमन लाल ने बैंक से वित्तीय सहायता हेतू निवेदन किया था और आपके निवेदन पर बैंक ने आपको निम्नलिखित सुविधा(ओं) की अनुमित तथा स्वीकृति दी। (i) 24/03/2012 को रु. 1233360/- (रुपये बारह लाख तैंतीस हजार तीन सौ साठ मात्र)

(ii) 31/03/2015 को रु. 600000 / - (रुपये छह लाख मात्र) का आवास ऋण टॉप-अप। उपर्युक्त ऋण सुविधाएं अचल सम्पत्ति अर्थात अचल संपत्ति संख्या एस-21 दूसरी मंजिल बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 40.63 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 618/407 में से, ग्राम उल्धनपुर, आबादी नवीन शाहदरा, दिल्ली 110032 में स्थित सम्बोधिती नंबर 1 श्रीमती पूनम पत्नी श्री बिरजू से संबंधित, बिक्री विलेख दिनांक 15-05-2012 के माध्यम से बुक नं. 1, खंड संख्या 1217, क्रमांक 93 से 100 तक के पृष्ठ क्रमांक 2211 में उप पंजीयक IVA शाहदरा दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत के परिप्रेक्ष्य में इक्विटेबल बंधक द्वारा विधिवत प्रतिभृत थीं।

2. आप सम्बोधिती सं. 1 श्रीमती पूनम पत्नी श्री बिरजू एवं सम्बोधिती सं. 2 श्री बिरजू पुत्र श्री चमन लाल ने 24.03.2012 तथा 31.03.2015 को उपर्युक्त सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न ऋण दस्तावेजों को क्रियान्वित किया था और साथ ही उपर्युक्त कथित सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में मासिक रेस्ट्स तथा समय-समय पर बैंक के दिशा-निर्देशों के साथ बीआर+1% तथा बीआर+0% क्रमशः वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने के लिए भी सहमत थे।

3. कि आप सम्बोधित सं. 3 श्री सौरभ सेठी पुत्र श्री दीपक सेठी उपर्युक्त कथित ऋण सुविधाओं की वसूली में सम्बोधित सं. 1 एवं 2 के लिए गारंटर थे और बैंक के पक्ष में 24.03.2012 को अनवरत गारंटी का विलेख क्रियान्वित किया और इस प्रकार सम्बोधित सं. 3 सह-अस्तित्व में हैं और आप सभी संयुक्त एवं पृथक रूप से ब्याज, लागत तथा अन्य परम्परागत बैंक शुल्कों सहित बैंक के बकाए का भूगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

4. कि, आप संबोधिती सं. 1 श्रीमती पूनम पत्नी श्री बिरजू ने उपर्युक्त सम्बोधिती संय 1 एवं 2 को उपर्युक्त कथित ऋण सुविधाओं की वसूली में, बैंक के बकाये को प्रतिभूत करने के लिए अचल संपत्ति संख्या एस-21 दूसरी मंजिल बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 40.63 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 618/407 में से, ग्राम उल्धनपुर, आबादी नवीन शाहदरा, दिल्ली 110032 में स्थित सम्बोधिती नंबर 1 श्रीमती पूनम पत्नी श्री बिरजू से संबंधित, बिक्री विलेख दिनांक 15-05-2012 के माध्यम से बुक नं. 1, खंड संख्या 1217, क्रमांक 93 से 100 तक के पृष्ठ क्रमांक 2211 में उप पंजीयक IVA शाहदरा दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत के परिप्रेक्ष्य में इक्विटेबल बंधक का निर्माण किया है।

गिरवी रखी गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है: क) मार्टगैजर का नामः संबोधिती सं. 1 श्रीमती पूनम पत्नी श्री बिरज्

ख) मार्टगैजीः पंजाब एंड सिंध बैंक, बी.ओ- पहाड़गंज, नई दिल्ली

ग) प्रतिभृत राशिः रु.1233360/- (रुपये बारह लाख तैंतीस हजार तीन सौ साठ मात्र) और रु. 600000/- (रुपये छह लाख मात्र)

घ) ब्याज दर : बीआर+1% और बीआर+0%

ङ) गिरवी सम्पत्ति का विवरणः नवीन शाहदरा दिल्ली 110032 की आबादी में ग्राम उल्धनपुर के क्षेत्र में स्थित खसरा संख्या 618/407 में से 40.63 वर्गमीटर क्षेत्रफल के बिना छत के अधिकार के बिना अचल संपत्ति संख्या एस-21 दूसरी मंजिल

व) टाइटल डीड्स का विवरण : बिक्री विलेख दिनांक 15-05-2012 को बुक नं। 1, खंड संख्या 1217, क्रमांक 93 से 100 तक के पृष्ठ क्रमांक। 2211 उप पंजीयक आईवीए शाहदरा दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत

छ) सम्पत्ति की चौहदुदीः पूर्वः दुसरों की संपत्ति पश्चिमः गली 9 फीट चौड़ी उत्तरः श्री उमंग सागर की संपत्ति दक्षिणः श्री महमूद अहमद की संपत्ति

ज) वर्तमान बकाया राशिः रु.1500670.72 + 01/09/2022 से ब्याज और बैंक शुल्क और व्यय। 5. कथित आवास ऋण राशि रु. 13400/- 240 मासिक किस्तों सहित पूर्ण भुगतान की तिथि तक बीआर+1% वार्षिक ब्याज की दर से देय था और कथित आवास ऋण टॉप-अप रु. 6318.49/-की 204 मासिक किस्तों में पूर्ण भुगतान की तिथि तक बीआर+0% वार्षिक ब्याज की दर से देय

. कि, आप स्वीकृति तथा ऋण दस्तावेजों की शर्तो के अनुसार चूक करने की स्थिति में मासिक रेस्ट्स के साथ सामान्य स्वीकृत ब्याज दर से ऊपर तथा अधिक 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त दंड ब्याज का भुगतान करने के लिये सहमत हुए।

7. आपने ऋण दस्तावेज 24.03.2012 तथा 31.03.2015 को निष्पादित किये।

8. आपके खाते को 29.08.2022 को गैर प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

9. कि, मेरा बैंक खाता की नियमित पुस्तकों का प्रबंध करता है तथा अब खाता सं. 00191200085437 में रु. 1008819.82/- तथा खाता सं. 00191200085578 में रु. 491850.90/- इस प्रकार कुल रु. 1500670.72/- जिसमें 01.09.2022 तक ब्याज एवं बैंक प्रभार तथा व्यय शामिल है, आप ऊपर नामित संबोध्य व्यक्ति 1 से 4 पर कानुनी रूप से बकाया है तथा आप सम्पूर्ण भुगतान की तिथि तक ब्याज लागत तथा अन्य परम्परागत बैंक चार्जों के साथ बैंक को उक्त राशि का भुगतान करने के लिये संयुक्त तथा पृथक रूप से उत्तरदायी है।

10. कि, बैंक के आंतरिक दिशा निर्देशों के अनुसार समय-समय पर ब्याज की दरों में परिवर्तन होता रहता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ब्याज दर 8.85% तथा 10.05

11. कि आपने बैंक की बकाया जो उपरोक्त रूप में प्रतिभूत है, के पुनर्भुगतान में चूक की है।

12. आपका ध्यान धारा 13 की उप–धारा 13 के प्रति आकृष्ट किया जाता है कि आप इस सूचना में वर्णित कथित प्रतिभृत आस्तियों के बैंक की लिखित अनुमित के बिना बिक्री, एसाइन या पट्टे अथवा अन्यथा विधि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करेंगे।

 आपका ध्यान सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी, कोटेशन, जनता से निविदा आमंत्रित कर अथवा सार्वजनिक या निजी संधि द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई लागत, चार्जेज, खर्चे के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि यदि सार्वजनिक नीलामी, कोटेशन, जनता से निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई लागत, चार्जेज, खर्चे के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो आप प्रतिभृत सम्पत्ति को विमोचित करने के पात्र नहीं होंगे।

4. कृपया यह भी नोट करें कि उपरोक्त बकाया राशि की वसूली के लिए उपयुक्त अदालतों और/या न्यायाधिकरणों के समक्ष उपयुक्त कानूनी कार्यवाही शुरू करने सहित बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना यह नोटिस आपको भेजा गया है। यह नोटिस भी परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत संशोधित और/या भुगतान भुगतान अधिनियम 2007 के रूप में संशोधित के तहत बैंक द्वारा दायर किसी भी शिकायत पर मुकदमा चलाने के लिए बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

अतएव, इस सांविधिक सुचना के द्वारा आप सभी अर्थातु संबोध्य सं. 1 से 4 को अलग–अलग एवं संयुक्त रूप से मैं निर्देश देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर मासिक रेस्ट्स के साथ रु. 1500670.72/- + 01.09.2022 से ब्याज एवं बैंक प्रभार तथा व्यय का भुगतान कर अपनी देयताओं का निष्पादित करें अन्यथा, बैंक उक्त प्रतिभूत बकाये की वसूली के लिये सरफैसी अधिनियम, 2002 के चैप्टर III के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिये बाध्य होगा तथा उस स्थिति में आप उसके कारण हुई सभी लागत तथा अन्य खर्चें का भुगतान करने के लिये संयुक्त तथा

पृथक रूप से उत्तरादायी होंगे। कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की प्रति हमारे कार्यालय में रखी गई है।

www.readwhere.com

आपका विश्वासभाजन पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकृत प्राधिकारी) स्थानः नर्ड दिल्ली

दिनांकः 3 सितंबर, 2022

द करूर वैश्य बैंक लि. परिसम्पत्ति वसूली शाखा, नं. 6, 3रा तल, मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

फोन: 011-28758374/28751187 ईमेलः kvbl4121@kvbmail.com

Smart way to back पंजीकृत एडी के साथ तिथि: 06.09.2022 प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन नियमावली), 2002 के नियम 8(6) सरफैसी अधिनियम,

2002 के अंतर्गत ऋणधारकों तथा गारंटरों के लिये

अचल सम्पत्तियों की बिक्री सूचना

मै. ईको रूट्स फूड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड 2. श्री पुष्पिन्दर सिंह, पुत्र श्री नाथू राम, पंजी. कार्यालयः खसरा नं. 401 एवं 402, ग्राम हमीदपुर, वेस्ट एफ-2. फ्लैट नं. 701, किंग्सवे अपार्ट. टीडीआई सिटी, कुण्डली,

कार्यालय का पताः २ए/101, रंग रसायन, अपार्टमेन्ट, सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली-110085

(KVB) Karur Vysya Bank

सोनीपत-131028, हरियाणा 3. श्री नरेन्दर सीधर, पुत्र श्री राम लाल सीधर,

 श्रीमती कंचन सीधर, पत्नी श्री नरेन्दर 2-ए/101, एफएफ रंग रसायन अपार्टमेन्ट, सीधर, 2ए/101, एफ.एफ रंग रसायन, अपार्ट., सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली-110085 सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली-110085

5. श्रीमती किरण बाला, पत्नी श्री पृष्पिन्दर सिंह एफ-2, फ्लैट नं. 701, किंग्सवे अपार्ट. टीडीआई सिटी, कण्डली, सोनीपत-131028, हरियाणा

कृपया मांग सूचना तिथि 11.01.2022 देखें जिसमें आप क्रम सं. 1 से 5 को 31.12.2021 से आगे के ब्याज के साथ रु. 5,85,02,069.76 (रु. पाँच करोड़ पचासी लाख दो हजार उन्हत्तर एवं पैसे छिहत्तर मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया गया तथा संलग्न सूचना की सम्पत्ति का कब्जा किया गया तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत प्रतिभूत क्रेडीटर को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के उद्देश्य से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आपको कब्जा सूचना भी सर्व

आज की तिथि तक आपने अपनी सम्पर्ण देयताओं को निष्यादित नहीं किया है अतः कानन के अनसार देय आगे/ अप्रयुक्त ब्याज के साथ रु. 5,85,02,069.76 (रु. पाँच करोड़ पचासी लाख दो हजार उन्हत्तर एवं पैसे छिहत्तर मात्र) की वसली के किये 30.9.2022 को उपरोक्त अचल सम्पत्ति की बिक्री का प्रस्ताव करते हैं।

एतद्द्वारा हम आपको सूचित करते हैं कि ई-नीलामी के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त अचल सम्पत्तियों की बिक्री की जाएगी जो बिक्री की पूर्णता तक प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 30.9.2022 को 12.30 अप. से 1.00 बजे के बीच पोर्टल https://eauctions.samil.in के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

> प्राधिकृत अधिकारी द करूर वैस्य बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालयः 4237 / 11, द्वितीय तल, नरेंद्र भवन 1, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002, ईमेल आईडीः rjheadoffice@gmail.com

को मध्याहन ११.०० बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य दृश्य—श्रव्य संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा। यह आयोजन, एमसीए वे सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020. सामान्य परिपत्र सं. 22/2020 दिनांकित 15 जन 2020. सामान्य परिपत्र सं. 33/2020 देनांकित २८ सितंबर २०२०, सामान्य परिपत्र सं. ३९ / २०२० दिनांकित ३१ दिसंबर २०२०, परिपत्र सं. ०२ / २०२१ दिनांकित १३ जनवर 2021 तथा सामान्य परिपत्र सं. 02/2022 दिनांकित 5 मई 2022 (सामुहिक रूप में ''एमसीए परिपत्र'') तथा भारतीय प्रतिभृति एव वेनियम बोर्ड ("सेबी") ने अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मईं 2020. परिपत्र संः सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी 2021 और परिपत्र र सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई 2022 (सामूहिक रूप में ''सेबी परिपत्र'') (यहाँ इसमें इसके उपरांत सामृहिक रूप में परिपत्रों के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, कंपनियों को किसी साधारण स्थल पर सदस्य की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना वीसी के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार, कंपनी की एजीएम का आयोजन वीसी के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन–देन करने के लिए किया जा

में. एजीएम की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021—22 की इलेक्टॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी गयी हैं जिनकी ईमेल आईडी कंपनी ⁄ डिपाजिटरी प्रतिभागी(गियों) के पास पंजीकृत हैं। यह प्रलेख कंपनी की वेबसाइट WWW.INDOGULFIND.IN पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड ''सीडीएसएल'') की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। ईमेल्स के माध्यम से एजीएम की सूचना का प्रेषण—कार्य 04.09.2022 को पूर्णी

न्ट—ऑफ तिथि 26.08.2022 के अनुसार भौतिक प्रारूप या अभौतिक प्रारूप में अंशों का धारण करनेवाले सदस्य, एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय पर, सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई—वोटिंग) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रविधि ने अपने वोट डाल सकते हैं। अतः सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:– एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन-देन, रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम

. रिमोट ई—वोटिंग का प्रारंभ रविवार 26.09.2022 को प्रातः 09.00 बजे होगा। i. रिमोट ई—वोटिंग का समापन मंगलवार 28.09.2022 को सायं 05.00 बजे होगा।

्रिमोट ई—वोटिंग अथवा एजीएम में ई—वोटिंग प्रणाली द्वारा वोट डालने की पात्रता निर्धारित करने की कट—ऑफ तिथि

रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल 28.09.2022 को सायं 5.00 बजे के उपरांत निष्क्रिय कर दिया जायेगा। . कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के अंशों का उपार्जन करता है और एजीएम की सचना के प्रेषणोपरांत एक सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि अर्थात् 23.09.2022 के अनुसार अंशों का धारण करता है, वह www.evotingindia.com पर एक निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता 🛭 है। हालांकि, यदि यदि कोई व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह अपना वोट डालने के लिए विद्यमान वर्तमान प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड का

. सदस्यगण ध्यान दें कि— क) रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा 28.09.2022 को सायं 05.00 बजे भा.मा.स. बाद निष्क्रिय कर दिया जायेगा और यदि सदस्य द्वारा एक बार किसी संकल्प पर वोट डाल दिया जाता है तो सदस्य बाद में इसे बदलने की अनमति नहीं दी जाएगी: ख) वोटिंग की सविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध करायी जायेगी और जो सदस्यगण वीसी सविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहते हैं तथा जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से संकल्पा पर अपने वोट नहीं डाले हैं तथा जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम में ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के लिए पात्र होंगे; ग) और ऐसे सदस्यगण जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डाल दिये हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उन्हें एजीएम में पुनः अपने वोट डालने के अधिकार नह होंगे: तथा. घ) केवल वही व्यक्तिगण जिनके नाम कट—ऑफ तिथि के अनसार सदस्यों की पंजिका में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में प्रविष्ट पाये जाते हैं, रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा

iii. अभौतिक प्रारूप, भौतिक प्रारूप में अंशों का धारण करनेवाले सदस्यों के लिए तथा उन सदस्यों के लिए, जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकत नहीं कराये हैं. दरस्थ माध्यम से वोट डालने की प्रविध का वर्णन एजीएम की सचना में किया गया है। इस संबंध में विस्तृत–विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराये गये हैं। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे विस्तृत–विवरण प्राप्त करने के लिए www.indogulfind.in देखें। जिन सदस्यो ने अपने ईमेल पतों का पंजीकरण नहीं कराया है उनसे निवेदन है कि वे अपने पते संबंधित डिपॉजिटर्र

पार्टिसिपेंट(टस) के साथ पंजीकत कर लें तथा भौतिक प्रारूप में अंशों का धारण करनेवाले सदस्यगणों से निवेदन है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और अंशांतरण अभिकर्ता बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ beetalrta@gmail.com पर अपने ईमेल पते अद्यतनीकृत कर लें, ताकि उन्हें 39वीं एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 की प्रतियां, रिमोट ई–वोटिंग के अनुदेश तथा वीसी के माध्यम से एजीएम में भागीदारी करने हेतु अनुदेश प्राप्त हो अपने लाभांश प्राप्त करने के लिए मैनडेट्स का पंजीकरण करने की इच्छा रखनेवाले सदस्यगण जिस प्रविधि की ढूंढ कर रहें

यदि आपके पास एजीएम में उपस्थित होने एवं ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग करने के संबंध में कोई प्रश्न या शिकायत तो आप www.evotingindia.com के सहायता अनभाग के अंतर्गत उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते अथवा श्री नितिन कुंदर (022–23058738) अथवा श्री महबूब लखानी (022–23058543) अथवा श्री राकेश दल्वी i. इलेक्ट्रॉनिम माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से जुड़ी हुयी समस्त शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, प्रबंधक (सीडीएसएल

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (पूर्व), मुंबई–400013 को अपनी शिकायत लिखकर भेज सकते हैं अथवा शिकायत ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेज सकते हैं अथवा 022-23058542/43 पर कॉल कर सकते हैं।

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 01.09.2022

तराई फूड्स लिमिटेड

सीआईएनः एल15142डीएल1990पीएलसी039291 पंजीकृत कार्यालयः 13, हनुमान रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, वेबसाइटः www.taraifoods.com, ई-मेलः taraifoods@gmail.com, दूरभाष सं: 011-41018839 32वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), रिमोट ई-वोटिंग

जानकारी तथा बही समापन जानकारी की सूचना एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 32वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार 26 सितम्बर 2022 को प्रातः 10.00 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य संसाधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जानी अनुसूचित है।

कम्पनी ने 32वीं एजीएम की सूचना, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित लेखाओं तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों के प्रतिवेदनों के साथ कॉर्पोरेट अधिशासन पर रिपोर्ट से समाविष्ट वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण-कार्य, ऐसे सदस्यों जिनकी ईमेल आईडी पत्राचार के प्रयोजन के लिये कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स के पास पंजीकृत हैं, को, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से 2 सितंबर 2022 को पूरा कर लिया है। इस एजीएम का आयोजन, एमसीए के सामान्य परिपत्रों संख्याएं क्रमशः 14/2020, 17/2020. 20 / 2020, 02 / 2021 एवं 02 / 2022 दिनांकित क्रमशः ८ अप्रैल २०२०, 13 अप्रैल २०२०, ५ मई २०२०, 13 जनवरी 2021 एवं 05 मई 2022 तथा सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएम01 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई 2020 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियमावली'') के साथ पिठत कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के प्रयोज्य प्रावधानों के उपयुक्त अनुपालन में किया जा रहा है, जिसमें कंपनी अधिनियम

2013 के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुपालन में किसी साधारण स्थल पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) संशोधित नियमावली 2015 तथा तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमावली 2015 के विनियम 44 द्वारा संशोधितानुसार कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह कंपनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए अपने सदस्यों को सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। कंपनी ने

सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग सेवाएं प्राप्त की हैं। रिमोट ई—वोटिंग अवधि शुक्रवार 23 सितम्बर 2022 को प्रातः 10.00 बजे (भा.मा.स. पर) प्रारंभ होगी तथा रविवार 25 सितम्बर 2022 को सायं 5.00 बजे (भा.मा.स. पर) समाप्त होगी।

उसके बाद मतदान के लिये रिमोट ई-वोटिंग पद्धत्ति को सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा किसी भी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद, सदस्य को उसमें परिवर्तन की अनमति नहीं दी जायेगी। सदस्यों के मतदान के अधिकार कट—ऑफ तिथि. जो 19 सितंबर 2022 है.

के अनुसार सदस्यों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होंगे। दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ यह सूचना, ऐसे सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके नाम 26 अगस्त 2022 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरीज के

यदि कोई व्यक्ति कम्पनी का शेयर अर्जित करता है तथा सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि अर्थात् 19 सितंबर 2022 के अनुसार शेयर धारित करता है, वह सूचना में रिमोट ई-वोटिंग के लिये वर्णितानुसार अनुदेशों का पालन कर सकता है। कम्पनी 32वीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित शेयरधारकों, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफार्म द्वारा

द्वारा मतदान नहीं किया है, के लिए सीडीएसएल प्लेटफार्म के द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त, एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करने के बाद भी 32वें एजीएम में भागीदारी कर सकता है लेकिन उसे सभा में पुनः मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ–भोगी स्वामियों के रजिस्टर में प्रविष्ट होगा, केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे। जिन सदस्यों को सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वे उसे कम्पनी की वेबसाइट अर्थात्

www.taraifoods.com से अथवा www.bseindia.com की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम सूचना में मुद्रित ई-वोटिंग से संबंधित अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान से संबंधित कोई भी प्रश्न/शिकायत/समस्या श्री जी. एस. संधू प्रबंध निदेशक को कम्पनी के पास कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय– केबिन नं. 6. बिल्डिंग नं. 6. को आफिज, पार्क एंड कॉलोनी, नई दिल्ली—110 092 में भेजी जा सकती है अथवा taraifoods@gmail.com पर ई-मेल की जा सकती है अथवा 011-4108839 पर कॉल करें। एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यावसायिक मदों से संबंधित दस्तावेज, एजीएम की तिथि तक सभी

कार्यदिवसों पर सामान्य व्यावसायिक अवधि के दौरान (प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिये खुले हैं। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत विरचित नियमावली तथा सेबी

(एलओडीआर) विनियमावली 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की अंशांतरण बहियां, सोमवार 19 सितंबर 2022 से लेकर के सोमवर 26 सितंबर 2022 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक कंपनी के एजीएम के उद्देश्यार्थ बंद रहेंगी। बोर्ड के आदेशानुसार

कृते तराई फूड्स लिमिटेड हस्ता./-

विजय कांत असीजा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

कांन्ताज ट्रैंक पैंक इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 133 द्वितीय तल, तिलक बाजार, दिल्ली-110006 CIN No. U74950DL1990PLC040856, Email: info@ktpil.com, Mob: 9311735279

सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कांन्ताज ट्रैक पैक इंडिया लिमिटेड की 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार दिनांक 30 सितम्बर 2022 को प्रातः 11.00 बजे सोलीटायर होटल, ए-134, 135, शकरपुर, विकास मार्ग, अपोजिट मेट्रो पिलर नं0 37, दिल्ली-110092 के सम्मेलन कक्ष में होगी। जिसमें सूचना पत्र में लिखे कार्य व्यापार को निपटाया जाएगा। यह सूचना-पत्र अंशधारियों को डाक द्वारा भेज दी गई है।

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनीज के अधिनियम 2013 की व्यवस्था के अनुसार कंपनी की सदस्य पुस्तिका और अंश हस्तांतरण पुस्तिका दिनांक 21.09.2022 से 30.09.2022, 10 दिनों के लिए (दोनों दिन समेत) आम सभा के कारण बंद रखी जाएगी।

निदेशक मंडल के आदेश से हस्ता / -

स्थान : दिल्ली अरूण अग्रवाल दिनांक : 05.09.2022 डायरेक्टर

सूरज इंडस्ट्रीज लि. पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 2, फेज-3, संसारपुर टैरेस, जिला कांगड़ा, हि.प्र.-173212

CIN:L26943HP1992PLC016791, टेलीफोन नं. 01970-256414 कारपोरेट कार्यालय : एफ-32/3, दूसरा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-110020 ईमेल आईडी: secretarial@surajindustries.org; वेबसाईट: www.surajindustries.org 30वीं वार्षिक आम सभा पुस्तक बंद होने तथा

ई-वोटिंग जानकारी हेतु सदस्यों के लिए सूचना रतदृद्वारा सृचित किया जाता है कि एमसीए सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, साधारण सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 साधारण सर्क्युलर नं. 20/20 तिथि 5 मई, 2020 साधारण सर्क्युलर नं. 02/2021 तिथि 1

जनवरी, 2021, साधारण सर्क्युलर नं. 19/2021 तिथि 8 दिसम्बर, 2021, साधारण सर्क्युलर नं. 21/2021 तिथि 14 दिस. 2021 तथा साधारण सर्क्युलर नं. 02/2022 तिथि 5 मई, 2022 (एमसीए सर्क्युलर्स) के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सेबी सर्क्यूलर नं. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी1/ सीआईआर/ पी/ 2020/79 तिथि 12 मई, 2020 तथा SEBI/HO/CFD/CMD2/P/2021/11 तिथि 1. जनवरी, 2021 तथा SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 तिथि 13 मई, 2022 (सेबी सर्क्युलर) द्वारा व गई सुविधा के अनुसार मै. सूरज इंडस्ट्रीज लि. की 29वीं वार्षिक आम सभा कम्पनी की 29वीं वार्षिक आम सभा वर्णित व्यवसाय को निष्पादित करने के लिए किसी सामूहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना मंगलवार 27 सितम्बर, 2022 को 4.00 बजे अप. में विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'') अन्य ऑडियो विज्ञअल माध्यमें ''ओएवीएम'') के द्वारा आयोजित की जाएगी

–वोटिंग सहित वीसी/ ओएवीएम सविधा द्वारा साधारण सभा में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरणों के साथ 29वं वार्षिक आम सभा की सूचना सोमवार, 5 सितम्बर, 2022 को ईमेल द्वारा ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनवे ईमेल पता कम्पनी या रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट या सेबी सर्क्यूलर्स के अनुसार उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स (''डीपी'') के पास पंजीकृत हैं तथा वह कम्पनी की वेबसाईट www.surajindustries.org, स्टॉव एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर भं

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियम, 2015 के नियम 20 तथा सेबी (सुचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में सदस्ये को एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों पर सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदत्त सेवाओं के द्वारा रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पुर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 को 10.00 बजे पूर्वा. शुरू होगी तथा सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। 5 बजे अप. के बाद ई-वोटिंग की अनमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरा सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर र्द जिन सदस्यों ने एजीएम से पर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे वीसी/ ओएवीएम सविधा द्वारा एजीएम

में शामिल हो सकते हैं किन्तु एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा द्वारा फिर से मतदान के लिए अधिकृत नह

किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा एक बार मतदान के बाद उन्हें उसमें परिवतन की अनुमति नहीं दी जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में शामिल होने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिये विस्तृत निर्देश 29वीं एजीएम की सचना में दिये गये हैं। सदस्यों के मतदान का अधिकार, 20 सितम्बर, 2022 (कट ऑफ तिथि) को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा। यदि कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को कम्पनी के सदस्य हैं तो केवल व ही रिमोर्ट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग द्वारा एजीएम की सचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर मतदान के लिये योग्य होंगे. के लिए अधिकत होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं. वे केवल जानकारी के लिये इस सचना को देखें। यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सचना के इलेक्ट्रानिक प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का शेयर कट-ऑफ तिथि को घटित करते हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर इमेल भेजकर लागिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते है लेकिन, यदि कोई व्यक्ति रिमोर्ट-ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत हैं तो मतदान के लिये वे अपने वर्तमान यजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों अथवा जिन्होंने कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हों, वे निम्न प्रक्रिया के अनुसार ई-वोटिंग के लिये लॉगिन क्रेडेन्शियल्स प्राप्त कर सकते हैं:

भौतिक पद्धित में शेयर धारित करने वाले सदस्यों beetalrta@gmail.com पर आरटीए को ई-मेल द्वारा शेयर प्रमाणपत्र (फ्रान्ट एवं बैक) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति तथा आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति के साथ कृपया अपना नाम, फोलिओ नम्बर, पंजीकृत की जाने वार्ल डीमैट पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के माध्यम से कृपया अपन

यदि ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया www.evotingindia.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखे अथवा 022–23058542 पर सीडीएसएल से सम्पर्क करें। ई–वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी भी समस्या के लिये कुपय श्री राकेश डाल्वी, प्रबंधक (सीडीएसएल), सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वाँ तल, मैराथन

मतदान के परिणाम की घोषणा एजीएम की पूर्णता के 2 कार्य दिवसों के भीतर की जायेगी तथा पर्यवेक्षक के समेकि रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को कम्पनी तथा सीडीएसएल की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। कम्पनी को ISIN (INE170U01011) तथा कम्पनी की शेयरों के डिमैटिरयलाईजेशन के लिये आवंटित की गई

फ्यूचुरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013 से सम्पर्क करें य

022-23058542 पर कॉल करें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की प्रक्रिया तथा तरीके के लिये कृपया 29वीं एजीएम

निदेशक मंडल के आदेश सुरज इंडस्ट्रीज लि. के लिर

है। सभी सदस्यों से आग्रह है कि अपनी शेयरों को डिमैटेरियलाइज्ड करा लें।

पंजीकत कार्यालय: ए-2, उद्योग भवन के सामने, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राजस्थान) CIN: L23201RJ1986PLC003704, फोन : 0141-2222232

काँटिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड

ई: मेल: cs.conpetco@gmail.com, conpetco@gmail.com, वेबसाईट: www.contol.in छत्तीसर्वी वार्षिक आम बैठक की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग और रिकॉर्ड तिथि की जानकारी

हत् द्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को म्पराह्न 03.00 खजे आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') और उसके तहत बनाए गए नेयमाँ और सेबी (सुजीकरण दायित्वाँ और प्रकटीकरण) के प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रोंसिंग ''वीसी'')/अन्य ऑडियो-विज्ञल मीन्म (''ओएबीएम'') सुविधा के माध्यम से आईएसटी आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी (एलओडीआर) विनियम), एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 20 कं साथ पढ़ा गया /2020 दिनांक 05 मईं, 2020, एमसीए सामान्य परिपन्न संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, एमसीए सामान्य परिपन्न संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और सामान्य परिपन्न संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 (''एमसीए परिपत्र '') और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए अन्य लाग् परिपत्र, लेन-देन के लिए साधारण और विशेष व्यवसाय जैसा कि एजीएम की सूचना में निर्धारित किया गया है । ं बोटिंग सहित बीसी/ओएबीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के साथ 3.1 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की सूचना मंगलवार 06 सितंबर, 2022 को उन सभी सदस्यों को ईं- मेल कर दि जिनका ई-मेल पता कंपनी वा रजिस्टार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियाँ (''डीपी'') के साथ एमसीए सर्कुलर और संबी सर्कुलर के अनुसार पंजीकृत था, और वहीं कंपनी की वंबसाइट (www.contol.com) पर, स्टॉक एक्सचेंज की वंबसाइट (www.bseindia.com) पर और सेंट्ल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं ।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, संबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 और एमसीए परिपन्न , सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है, जो एजीएम की सचना में निर्धारित सभी संकल्प हैं।

रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 (सबह 9:00 पूर्वाह IST) से शुरू होगी और गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 (शाम 05:00 कर्ज IST) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं । इसके बाद, सी डीएसएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा । जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना बोट डाला है, वे भी बीसी/ओएबीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना वोट दोवारा

रेघोट ई-बोटिंग, एजीएम में शामिल होने और एजीएम के दौरान ई-बोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिर श्री रोहित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग चार्टाई एकाउंटेंट, को कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (जैसा संशोधित) के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग और ई- एजीएम में मतदान के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त

एक बार सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर बोट देने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुपति नहीं दी जाएगी।

सदस्यों के वोटिंग अधिकार शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 (''कट-ऑफ तिथि'') को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए इक्किटी शेयरों के अनुपात में होंगे। एक व्यक्ति, जिसका नाम है सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज कट-ऑफ तारीख को केवल एजीएम में शामिल होने, एजीएम के दौरान रिमोट ई-बोटिंग और ई-बोटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। जो कट-ऑफ

तिथि को सदस्य नहीं रहता है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से मानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तारीख के बाद शंचरों का अधिग्रहण करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके या helpdesk-evoting@cdslindia-com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं । हालांकि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई-बोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है,

तो वह अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है अपना बोट डालने के लिए ।

यदि आपने कंपनी / डीपी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, तो आप ई-बोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए कपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं । कपया बीटल फाइनेंग्रियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को, रजिस्टार और ग्रेयर टांसफर एजेंट एक अनुरोध भेजें beetal@beetalfinancial-com पर , अपना नाम, फोलियो नंबर, शंयर होस्खिंग सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी (आगे और पीछे), पैन कार्ड की संस्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी और आधार

कार्ड की संस्फ अटेस्टेड स्कॅन कॉपी प्रदान करें, ई-मेल पता दर्ज करने के लिए।

कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमेंट खाते में अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें।

, इसके अलावा, अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेवी (एलओडीआर विनियमों के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेवर ट्रांसफर बुक्स शनिवार, 24 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 तक बंद रहेगी (दोनों दिन सम्मिलित) एजीएम के प्रयोजन के लिए। मतदान का परिणाम एजीएम के समापन के 48 घंटों के भीतर यानी 02 अक्टूबर, 2022 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा और इस प्रकार घोषित परिणामों को समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट (www.contol.in) और सीडीएसएल बेबसाइट पर रखा जाएगा (www.evotingindia.com) । एजीएम का उपर्युक्तविवरण अर्थात बीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बुलाई जाने वाली एजीएम की तारीख

और समय, बुक क्लोजर, रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग विवरण 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित होने वाले सभी स्थानों पर पढ़े और प्रतिस्थापित किए जाएं। यदि ई-बोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-बोटिंग में भाग लेने के संबंध में आपके कोई प्रश्न या महे हैं, तो आप

www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पृछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्य्') और ई-वोटिंग मैन्अल देख सकते हैं, या एक ईमेल लिख सकते हैं I helpdesk.evoting@cdslindia.com पर संपर्क करें या श्री नितिन कुंदर (022-23058738) या श्री महत्वृब लाखानी (022-23058543) या श्री राक्षेण दलवी (022-23058542) से इलंक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, प्रबंधक,

मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग को संबोधित किया जा सकता है। लोअर परेल (पूर्व), मुंबई 400013 या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईंपेल भेजें या 022-23058542 ∕ 43 पर कॉल करें । वास्ते- कॉटिनेंटल पेट्रोलियम्स लिपिटेड स्थानः जयपर

(सीडीएसएल,) सेंट्ल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मॅजिल, मैराधन फ्यूचरएक्स,

पदनलाल खण्डेलबाल (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक) DIN: 00414717

कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है. वह helpdesk.evoting@cdslindia.com বথা cs@greatvalueindia.com प अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। . पोस्टल बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक

. कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस के प्रेषण के बाद

देने वाले सदस्य भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दुबारा वोट डालने के पात्र नहीं . यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपका कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप निम्नलिखित व्यक्ति से

संपर्क कर सकते हैं: नाम : श्री राकेश दलवी (प्रबंधक)

लोअर परेल (ई), मुंबई -400013।

ईमेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com फोन नंबरः 022-23058542/43

8. सदस्य ध्यान दें कि एजीएम के नोटिस में रिमोट ई-वोटिंग/ एजीएम के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। एजीएम की सूचन और वार्षिक रिपोर्ट उचित समय पर कंपनी की वेबसाइट यानी www.ayushman.net स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी www.msei.in और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज

9. उपरोक्त सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही और समय-समय पर जारी एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है।

नियुक्तियां



कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

अनुबंध के आधार पर **प्रबंधक (पर्यावरण) -1** के पद के लिए विज्ञापन। कृपया उपरोक्त पद के लिए दिनांक 13/07/2022 का विज्ञापन सं. 05/2022 देखें। संशोधित योग्यता तथा अनुभव मानदंड के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.mumbaiport.gov.in

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15/09/2022 तक बढ़ा दी गई है। की आवश्यकता नहीं है।

MbPT-08-2022

छवि अग्रवात

(कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली

भारतीय स्टेट बैंक केन्द्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉरपोरेट केन्द्र, मुंबई

भारतीय स्टेट बेंक में विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारियों की भर्ती भारतीय नागरिकों से नियमित/संविदागत आधार पर निम्नांकित पदों के लिए आवेदन

आमंत्रित किए जाते हैं : क्र. सं. विज्ञापन संख्या: CRPD/SCO/2022-23/13 सहायक प्रबंधक (.नेट डेवलपर) 5 उप प्रबंधक (.नेट डेवलपर) 4 सहायक प्रबंधक (जावा डेवलपर) 4 उप प्रबंधक (जावा डेवलपर) 4 उप प्रबंधक (एआई/एमएल डेवलपर) सहायक प्रबंधक (विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर) 2

सहायक प्रबंधक (लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर) उप प्रबंधक (डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर) उप प्रबंधक (एप्लिकेशन सर्वर एडिमिनिस्ट्रेटर) उप प्रबंधक (ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर) वरिष्ठ विशेष कार्यकारी (इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन) वरिष्ठ विशेष कार्यकारी (DevOps) वरिष्ठ विशेष कार्यकारी और क्लाउड नेटिव इंजीनियर वरिष्ठ विशेष कार्यकारी (इमर्जिंग टेक्नोलॉजी)

वरिष्ठ विशेष कार्यकारी (माइक्रो सर्विसेज डेवलपर) विज्ञापन संख्या: CRPD/SCO-WEALTH/2022-23/14 प्रबंधक (बिजनेस प्रोसेस) केंद्रीय संचालन दल-सहायता 2 प्रबंधक (बिजनेस डेवलपमेंट) 2 परियोजना विकास प्रबंधक (बिजनेस) रिलेशनशिप मैनेजर 335 निवेश अधिकारी 21 52 147

24 क्षेत्रीय प्रमुख 12 ग्राहक संबंध कार्यकारी 75 विज्ञापन संख्या: CRPD/SCO/2022-23/16 प्रबंधक (डेटा साइंटिस्ट) 11 उप प्रबंधक (डेटा साइंटिस्ट) 5

37

नियमित पद: क्र. सं. 1 से 10 और क्र. सं. 26 से 28.

पात्रता मानदंड (आयु, अनुभव, नौकरी प्रोफाइल आदि), रिक्ति विवरण, अपेक्षित शुल्क और अन्य विवरण के लिए, बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi/web/careers पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने और साथ ही आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए दिए गए लिंक पर लॉग ऑन करें. आवेदन करने और शुल्क जमा करने से पहले पात्रता और अन्य विवरण सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत विज्ञापन देखें. किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया "CONTACT US"→ "Post Your Query" लिंक के माध्यम से हमें लिख भेजें, जो बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (https://bank.sbi/web/careers/post-your-query) पर

20.09.2022 तक.

advertising copy, it is not possible to verify its

contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with

Chandigarh

आयुष्मान इफ्राटक लिामटड

(फोन नंबर:-011-41349612-14) आयुष्मान इंफ्राटेक लिमिटेड की ४१वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आयुष्मान इंफ्राटेक लिमिटेड के शेयरधारकों की 49वीं वार्षिक

धीआईएन: 1.45100DL.1973PL.C006795

पंजीकृत कार्यालय: डीएससी-319, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत न्यू दिल्ली 1110017

कॉर्पोरेट कार्यालयः डीएससी-326, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत न्यू दिल्ली 1110017

ईमेल आईडी: cs@greatvalueindia.com; वेबसाइट: www.ayushman.net

आम बैठक एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यापार के लेन-देन के लिए शुक्रवार, 30 सितंबर 2022 को दोपहर 12:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय डीएससी-319 डीएलएफ साउथ कोर्ट। साकेत, नई दिल्ली-110017, में आयोजित की जाएगी। एजीएम नोटिस, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची सदस्यों को अनमत माध्यम से भेज दी गई है ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट यानी www.ayushman.net और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.msei.in पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्य यह भी नोट करें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में और सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे बढ़ाते हुए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 49वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचन केवल उन सदस्यों के पास जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी।

कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2022 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेय रखने वाले सदस्य एजीएम की सूचना में बताए गए अनुसार व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप र अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः 1. शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तदनुसार, शेयरधारक बैठक मे

मतदान करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान कर सकते हैं। 2. कोई व्यक्ति. जिसका नाम मतदान की कट-ऑफ तिथि 23 सितंबर. 2022 को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग या बैठक में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान

की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। 3. सदस्यों के रजिस्टर और शेयर टांसफर शनिवार, 24 सितंबर, 2022 से शक्रवार, 30 सितंबर 2022 [दोनों दिन शामिल] तक बंद रहेंगे।


।. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 (09:00 पूर्वाह्न भा.मा.स.) से शुरू होगी और गरुवार, 29 सितंबर, 2022 (05:00 अपराह्न भा.मा.स.) को समाप्त होगी। ई-वोटिंग सुविधा उक्त ई-वोटिंग अविध के दौरान www.evotingindia.com लिंक पर उपलब्ध होगी। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्युल को निष्क्रिय कर दिय

में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, वे बैठक मं अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे और बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट

निवासीः ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मटेरियल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग

(इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

आयुष्मान इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिए दिनांक: 5 सितंबर. 2022 विनय आनंद



(media/vacancy) देखें। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने

OSBI

फोन: 022-22820427; फैक्स: 022-22820411 नियमित/संविदागत आधार पर

22 वरिष्ठ संबंध प्रबंधक

प्रणाली अधिकारी

रिलेशनशिप मैनेजर (टीम लीड)

संविदा पद: क्र. सं. 11 से 25.

ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क का भृगतान करने की तिथि : 31.08.2022 से

स्थान: मुंबई दिनांक: 31.08.2022 महाप्रबंधक

"IMPORTANT"

advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

दिनांक: 06.09.2022